

कार्यपालक अभियंता, का कार्यालय  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ

पत्रांक 529 अडि/ बिहारशरीफ, दिनांक 11-05-2024

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ ।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी NABARD MAINTENANCE  
ग्रामीण कार्य विभाग बिहार पटना ।

विषय:- शीर्ष NABARD गरम्मति/अनुरक्षण योजनान्तर्गत पूर्ण पथों का 5-वर्षीय रूटीन अनुरक्षण कार्य के कार्यान्वयन हेतु अधियाचना पत्र समर्पित करने के संबंध में ।


महाशय,

NABARD गरम्मति/अनुरक्षण योजनान्तर्गत पूर्ण पथों का 5-वर्षीय रूटीन अनुरक्षण कार्य संवेदक द्वारा कराये गये पथों में एकरारनामा के अनुसार राशि की अधियाचना पत्र समर्पित की जा रही है ।

अनुरोध है कि 5-वर्षीय रूटीन अनुरक्षण कार्य कराने हेतु संलग्न सूची के अनुसार राशि उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि संवेदक को भुगतान किया जा सके ।

अनु०:- यथोक्त ।

  
11/5/24

विश्वासभाजन  
  
कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ  
11/5/24

**FORM GFR 19-A**

(See Government of India's Decision (1) below Rule-150)

**Form of Utilisation Certificate up to the month of -11.05.2024**

**(NABARD MAINTENANCE FUND)**

**PIU- BIHARSHARIF**

**Year-2024-25**


Sl. No.	Name of Scheme	Sanction No. & Date with Amount (in Rs. Lacs)	Amount Received (in Rs. Lacs)	Particulars	Remarks
1	Construction of Rural Roads under NABARD (4515) MAINTENANCE FUND	Order No-8466 Date-30.01.2023	22.48793	Certified that out of Rs 22.48793 received & balance during the years 2024-25 in favour of Ex. Engineer, R.W.D. Works Division Biharsharif, sum of Rs 22.48793 has been utilized for the purpose of NABARD MAINTENANCE FUND scheme as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs 0.0 lacs remaining unutilized at the end of the period under- 11.05.2024	
	<b>Total Rs.</b>		<b>22.48793</b>		



2 Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in- aid was Kind of Checks exercised :-

- (i) Works have been supervised by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- (ii) Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- (iii) Construction material have been tested.
- (iv) Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant .
- (v) All other codal formalities have been observed.

3 Physical Progress achieved:

- (i) Construction of Road Works.
- (ii) Construction of CD works

  
 Divisinal Accounts Officer  
 Rural Works Department  
 Works Division Biharsharif

  
 Executive Engineer  
 Rural Works Department  
 Works Division Biharsharif  


# राज्य योजना (नाबार्ड) अन्तर्गत पथों में पंचवर्षीय अनुरक्षण अधियाचना प्रपत्र

क्र. सं. कार्य प्रकल्प विवरण	विकास क्षेत्र का नाम	एकराशनामा के अनुसार प्रावधानित राशि वर्षवार					व्यय की राशि वर्षवार					कुल राशि (लाख में)	प्रथम वर्ष राशि (लाख में)	द्वितीय वर्ष राशि(लाख में)	तृतीय वर्ष राशि (लाख में)	चतुर्थ वर्ष राशि (लाख में)	पंचम वर्ष राशि(लाख में)	कुल राशि (लाख में)	परासंगिक स्वीकृति की राशि एवं प्रयोग दिनांक सहित प्रत्येक (लाख में)	पंचवर्षीय अनुमान की राशि सहित अनुमानित प्रयोग दिनांक (लाख में)	अनुमानित स्वीकृति का प्रत्येक/दिनांक	पुनर्निर्माण कार्य करने की वारंताधिक शिथि	वर्तमान अधियाचित राशि					कुल राशि अधियाचित राशि (लाख में)	कुल अधियाचित राशि (लाख में)	Remarks											
		प्रथम वर्ष राशि (लाख में)	द्वितीय वर्ष राशि(लाख में)	तृतीय वर्ष राशि (लाख में)	चतुर्थ वर्ष राशि(लाख में)	पंचम वर्ष राशि (लाख में)	प्रथम वर्ष राशि(लाख में)	द्वितीय वर्ष राशि (लाख में)	तृतीय वर्ष राशि (लाख में)	चतुर्थ वर्ष राशि (लाख में)	पंचम वर्ष राशि (लाख में)																														
1	Dhanuahi Kharana Road in Supasing ythan shed to supasing panchayat sakkar bhawan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27															
2	Chumuchak Road in Kumbh Middle School																																								
3	Construction of Road from Vanda Chumuchak Chaudhara Mor to Ora Village	0.216	0.310	0.468	0.414	0.522	1.92892	0.21269	0.29041	0.46065	0.96375	583517.05.17	2.180	583517.05.17	7	28.12.2018																									
Total-																					7.23428																				

1. कार्य विवरण के अनुरूप पूर्ण कर लिया गया है।

2 पथ में MQU/POMIE से संबंधित कोई सुधार प्रतिवेदन लंबित नहीं है।

3 अनुमोदित परिमाण विपत्र की कुल राशि प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से 20% अधिकतम सीमा के भीतर है साथ ही अनुमोदित परिमाण विपत्र के मदों की मात्रा का विस्तार का विवरण।

4 अनुमोदित स्वीकृति का पत्र अनुमोदित परिमाण विपत्र एवं एकराशना की अभिप्रायणीत प्रति।

प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, विहारराज्य

कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, विहारराज्य





ग्रामीण कार्य विभाग  
Rural Works Department, Govt of Bihar

## SBD AGREEMENT UNDER HEAD:- 4515 NABARD



Machine - 2832420220

Maintenance - 145,724220

Total - 286492622

UNDER

### RWD WORKS DIVISION BIHARSHARIF

C/S Approved By S.E. RWD Work Circle Nalanda Vide Letter 2150 (we) Dated 22.12.17

PROJECT NAME :- CONSTRUCTION OF ROAD FROM NEAR  
VENDA CHUNNUCHAK CHANDAURA TO ORA  
VILLAGE ROAD Inc. 5yrs. MAINTANANCE.

NAME OF CONTRACTOR :- SRI DEEPAK KUMAR

CONTRACTOR ADDRESS :- WARD NO.-17 SHIVPURI, BIHARSHARIF

REGISTRATION NO:- 2150692, PAN NO.- ATNPK7219B

BLOCK :- RAHUI

AGREEMENT No. :- SBD- ...../2017-18

ACCEPTED RATE :- 10.00% Below of BOQ Rate.

AGREEMENT Value :- Rs. 88,64,926.00

WORK STARTED DATE :- 30/12/17

29/12/18

Executive Engineer  
R.W.D. Work Division  
Biharsharif

दिपक कुमार

29/12/18



बिहार BIHAR

15399 नं. 2/18 दिपक कुमार वल्ड

X 539427

दुर्गा प्रसाद साकिन शिवपुरी

Agreement नंदपुर भाना लहरी

This agreement made the

day of 20

Between Executive Engineer, Rural Works Department, Works Division, Bihar Sharif under Plan Head 4515 Nabard for BRRDA 5th Floor Vishweshwaraiya Bhawan, Jawaharlal Nehru Marg, Patna- 15 (Name and address of Employer) (hereinafter called "the Employer") of part, and

Sri Deepak Kumar

Ward No.-17, Shivpuri

Ramchandrapur, Bihar Sharif, Nalanda.

Whereas the Employer is desirous that the Contractor execute of the of Construction of Road from Near Venda-Chunnuchak-Chandaura More to Ora Village including five year maintenance under Head 4515 Nabard. [Name and identification number of Contract] (here in after called "the works") and the Employer has accepted the Bid by the Contractor for the execution and completion of such Works and the remedying of any defects there in at a cost of Rupees 88,64,926.00 (Eighty Eight Lacs Sixty Four Thousand Nine Hundred & Twenty Six) only i.e on 10.00% (Ten Point Zero Percent) below of Estimated Rate with the intended completion date for the whole of the works 12 (Twelve) months from the date of issue of LOA.

दिपक कुमार

Executive Engineer

R.W.D. Work Division

Bihar Sharif



Tender Inviting Authority: Engg-in Chief RWD Patna						
Name of Work:- Construction of Road From Venda-Chunuchak Near Chandaure More to Ora Village						
Contract No: Civil Works/Nabard						
Bidder Name:		Excess ( + )				%
<b>SCHEDULE OF WORKS</b>						
(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevent columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)						
Sl. No.	Description of work	No. or Qty.	Unit	Estimated Rate		AMOUNT Rs. P
				Figure	Words	
1	<b>(A) PREPRATORY WORK &amp; SITE CLEARANCE</b>					
	Construction of Benchmark and Reference Pillars as per specification and drawing 200.1 & 200.2					
	(i) Construction of Reference & Working Benchmark = 2 Nos & 5 Nos Respectively	1.050	Km	8355.95		8773.75
	(ii) Construction of Reference Pillars/Burjees = 42 Nos	1.050	Km	5943.12		6240.28
2	<b>Clearing and Grubbing Road Land</b> Clearing and grubbing road land including uprooting wild vegetation, grass, bushes, shrubs, saplings and trees of girth upto 300 mm, removal of stumps of such trees cut earlier and disposal of unserviceable materials and stacking of serviceable material to be used or auctioned, upto a lead of 1000 m including removal and disposal of top organic soil not exceeding 150 mm in thickness as per Technical Specification Clause 201.	0.53	Hect.	46880.98		24846.92
3	Construction of embankment with approved material obtained from borrow pits with a lift upto 1.5m, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacting to meet requirement of Tables 300.1 and 300.2 with a lead upto 100m as per Technical Specification Clause 301.5.	4855.19	Cum	133.08		646128.69
4	Construction of subgrade & earthen shoulders with approved material obtained from borrow pits with all lifts and lead, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacted to meet requirement of Tables 300.2 with lead upto 1000m as per Technical Specification Clause 301.4.1	2685.40	Cum	173.22		465164.99
5	<b>Granular Sub-base with Well Graded Material (Table 400.1)</b> Construction of granular sub-base by providing well graded material (Crushed Stone Aggregates and Local Sand), spreading in uniform layers with motor grader on prepared surface, mixing by mix in place method with rotavator at OMC, and compacting with three wheel 80-100 kN static roller capacity to achieve the desired density, complete as per Technical Specification Clause 401	721.78	Cum	1368.23		987561.05

दिपक कुमार

2/11/21

**Executive Engineer**  
**R.W.D. Work Division**

Sl. No.	Description of work	No. or Qty.	Unit	Estimated Rate		AMOUNT Rs. P
				Figure	Words	
6	Providing, laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes to water bound macadam specification including spreading in uniform thickness, hand packing, rolling with smooth wheel roller 80-100 kN in stages to proper grade and camber, applying and brooming, stone screening/binding materials to fill-up the interstices of coarse aggregate, watering and compacting to the required density grading 2 as per Technical Specification Clause 405.	229.5	Cum	2370.64		544061.88
7	Providing, laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes to water bound macadam specification including spreading in uniform thickness, hand packing, rolling with smooth wheel roller 80-100 kN in stages to proper grade and camber, applying and brooming, stone screening to fill-up the interstices of coarse aggregate, watering and compacting to the required density Grading 3 as per Technical Specification Clause 405.	229.5	Cum	2321.21		532717.70
8	Providing and applying primer coat with bitumen emulsion (SS-1) on prepared surface of granular base including cleaning of road surface and spraying primer at the rate of 0.70-1.0kg/sqm using mechanical means as per Technical Specification Clause 502	3060	Sqm	44.97		137608.20
9	Providing and applying tack coat with Bitumen emulsion (RS-1) using emulsion distributor at the rate of 0.25-0.30kg per sqm on the prepared granular surfaces treated with primer & cleaned with Hydraulic broom as per Technical Specification Clause 503.	3060	Sqm	14.95		45747.00
10	Providing, laying and rolling of open-graded premix carpet of 20 mm thickness composed of 13.2 mm nominal size aggregates @ 0.18 cum/10 sqm and 11.2 mm nominal size aggregates @ 0.09 cum / 10 sqm using with bituminous binder @ 13.43 kg /10 sqm (that is 92% of standard bitumen and 8% waste process plastic by weight shell be used for coating aggregate after its heating) as per IRC:SP: 98-2013 laying and rolling with a three wheel 80-100 kN static roller capacity, finished to required level and grades to be followed by seal coat of either Type A or Type B or Type C as per Technical Specification Clause 508.	3060	Sqm	140.92		431215.20
11	Providing and laying seal coat sealing the voids in a bituminous surface laid to the specified levels, grade and cross fall using Type A as per Technical Specification Clause 510	3060	Sqm	46.16		141249.60

दिपक कुमार

Executive Engineer  
P.W.D. Work Division



AMOUNT Rs. P	Sl. No.	Description of work	No. or Qty.	Unit	Estimated Rate		AMOUNT Rs. P
					Figure	Words	
544061.88	12	Construction of un-reinforced, dowel jointed at expansion and construction joint only, plain cement concrete pavement, thickness as per design, over a prepared sub base, with 43 grade cement or any other type as per Clause 1501.2.2 M30 (Grade), coarse and fine aggregates conforming to IS:383, maximum size of coarse aggregate not exceeding 25 mm, mixed in a concrete mixer of not less than 0.2 cum capacity and appropriate weigh batcher using approved mix design, laid in approved fixed side formwork (steel channel, laying and fixing of 125 micron thick polythene film, wedges, steel plates including levelling the formwork as per drawing), spreading the concrete with shovels, rakes, compacted using needle, screed and plate vibrators and finished in continuous operation including provision of contraction and expansion, construction joints, applying debonding strips, primer, sealant, dowel bars, near approaches to bridge/culvert and construction joints, admixtures as approved, curing of concrete slabs for 14-days, using curing compound (where specified) and water finishing to lines and grade	172.13	Cum	6239.13		1073941.45
17.70	13	Earthwork in excavation for structures as per drawing and technical specifications Clause 305.1 including setting out, construction of shoring and bracing, removal of stumps and other deleterious material and disposal upto a lead of 50 m, dressing of sides and bottom and backfilling in trenches with excavated suitable material.	579.53	Cum	244.36		141613.95
20	14	Providing concrete for plain/reinforced concrete in open foundations complete as per drawings and technical specifications Clause 802, 803, 1202 & 1203 (PCC M-10)	23.24	Cum	4,509.02		104789.62
	15	Providing concrete for plain/reinforced concrete in open foundations complete as per drawings and technical specifications Clause 802, 803, 1202 & 1203 (PCC M-15)	39.11	Cum	4,482.99		175329.74
	16	Plain/reinforced cement concrete in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 802, 803, 1202 and 1203 (PCC Grade M-25)	250.85	Cum	5,754.78		1443586.56
	17	Supplying, fitting and placing HYSD bar reinforcement in foundation complete as per drawings and technical specifications Clauses 1000 and 1202	3.045	Cum	52,749.61		160622.56

19/11/18  
Executive Engineer  
R.W.D. Work Division  
Thiruvananthapuram

19/11/18

Executive Engineer  
R.W.D. Work Division  
Thiruvananthapuram  
Sharif



Sl. No.	Description of work	No. or Qty.	Unit	Estimated Rate		Amount
				Figure	Words	
18	Plain/reinforced cement concrete in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 802, 803, 1202 and 1203 (PCC Grade M-25)	187.99	Cum	6,132.96		1152935.16
19	Providing and laying filter media with granular crushed aggregates as per specification to a thickness of not less than 600 mm with smaller size towards the soil and bigger size towards the wall and providing over the entire surface behind abutment, wing wall, return wall to the full height, compacted to firm condition complete as per drawing and technical specification Clause 1204.3.8	39.49	Cum	1,917.17		75709.04
20	Providing weepholes in brick masonry/stone masonry, plain/reinforced concrete abutment, wing wall, return wall with 100 mm dia AC pipe extending through the full width of the structures with slope of 1(V):20(H) towards drawing face complete as per drawing and technical specification Clauses 614, 709, 1204.3.7	69.00	Nos	123.15		8497.35
21	Supplying, fitting and placing HYSD bar reinforcement (Fe 415) in substructure complete as per drawings and technical specification Clauses 1002, 1005, 1010 & 1202	3.30	MT	52,880.68		174717.77
22	Providing and laying reinforced cement concrete in superstructure as per drawing and technical specifications Clauses 800, 1205.4 and 1205.5	41.30	Cum	6,695.02		276504.33
23	Providing and laying cement concrete wearing course M 30 grade including reinforcement complete as per drawing and technical specifications Clauses 800 and 1206.3	6.57	Cum	10,074.94		66192.36
24	Reinforced Cement Concrete M 25 grade approach slab including reinforcement and formwork complete as per drawing and technical specifications Clauses 800 and 1211	17.75	Cum	8,926.75		158449.81
25	P.C.C. M 15 ordinary grade (1:2.5:5) levelling course below approach slab complete as per drawing and technical specifications Clauses 800 and 1211	8.87	Cum	4,116.39		36512.38
26	Providing and fixing 20 mm thick compressible fibre board in expansion joint complete as per drawing and technical specifications	25.35	M	365.29		9260.10
27	Drainage spouts complete as per drawing and technical specifications Clause 1209	8.00	Nos	551.42		4411.36

दिनांक १५/११/१८

Executive Engineer  
R.W.D. Work Division  
Riharsaini

Sl. No.	Description of work	No. or Qty.	Unit	Estimated Rate		AMOUNT Rs. P
				Figure	Words	
28	Construction of R.C.C railing of M 25 grade in cast-in-situ with 20 mm nominal size aggregate, true to line and grade, tolerance of vertical railing post not to exceed 1 in 500, centre-to-centre spacing between vertical posts not to exceed 2000 mm as per drawing and technical specifications Clauses 800, 900 and 1208.3	29.20	Cum	6,076.72		177440.22
29	Supplying, fitting, and placing HYSD bar reinforcement in superstructure complete as per drawing and technical specifications Clauses 1002, 1010 and 1202	3.732	MT	50,107.76		187002.16
30	Backfilling behind abutment, wing wall and return wall complete as per drawings & technical specification Clause 1204.3.8 (II) Sandy Material	70.350	Cum	676.09		47562.93
31	Providing and laying boulder apron for bed protection with stone boulders of minimum size and weight as per Table 1300.1, no fragment weighing less than 25 kg laid dry complete as per drawing and technical specifications Clause 1301	54.420	Cum	1,908.01		103833.90
32	Reinforced cement concrete M15 grade kilometre stone/local stone of standard design as per IRC:8 fixing in position including painting and printing, etc as per drawing and Technical Specification Clause 1703					0.00
	Ordinary Kilometer Stone (Precast)	2	Each	2042.56		4085.12
	200 m stone (precast)	4	Each	563.9		2255.60
33	Reinforced cement concrete M15 grade boundary pillars/local stone of standard design as per IRC:25, fixed in position including finishing and lettering but excluding painting as per drawing and Technical Specification Clause 1704	21	Each	478.02		10038.42
34	Painting two coats including primer coat after filling the surface with synthetic enamel paint in all shades on new, plastered / concrete surfaces as per drawing and Technical Specification Clause 1701 (For culverts)	22.32	Sqm	108.9		2430.65
35	Printing new letter and figures of any shade with synthetic enamel paint black or any other approved colour to give an even shade as per drawings and Technical Specification Clause 1701 English and Roman (for culverts)	88	Per Cm Lt per letter	0.51		44.88

18/01/18

Executive Engineer  
R.W.D. Work Division  
Bhamburda

18/01/18

Executive Engineer  
R.W.D. Work Division  
Bhamburda



Sl. No.	Description of work	No. or Qty.	Unit	Estimated Rate		AMOUNT Rs. P
				Figure	Words	
36	Providing and fixing of typical GTSNY informatory sign board with Logo as per MORD specifications and drawing. Three MS Plates of 1.6 mm thick, top and middle plate duly welded with MS flat iron 25mm x 5m size on back on edges. The lower plate will be welded with MS angle iron frame of 25mm x 25mm x 5mm. The iron frame of the lower most plate and flat iron frame of middle plate will be welded to 2 nos. 75mm x 75 mm of 12 SWG sheet tubes posts duly embedded in cement concrete M-15 grade blocks of 450mm x 450mm x 600mm, 600mm below ground level. The top most diamond plate of 12 SWG steel plate tube. All M.S. will be stove enameled on both sides. Lettering and printing arrows, border etc. will be painted with ready mixed synthetic enamel paint of superior quality in required shade and colour. All sections of framed posts and steel tube will be painted with primer and two coats of epoxy paint as per drawing Clause 1701 and Annexure 1700.1	2	Each	10905.15		21810.30
37	Providing and fixing of retro-reflectorised cautionary, mandatory and informatory sign as per IRC:67 made of encapsulated lens type reflective sheeting vide Clause 1701.2.3 fixed over aluminium sheeting, 1.5 mm thick supported on a mild steel angle iron post 75 mm x 75 mm x 6 mm firmly fixed to the ground by means of properly designed foundation with M15 grade cement concrete 450 mm x 450 mm x 600 mm, 600 mm below ground level as per drawings and Technical Specification Clause 801	9	Each			
	600 mm equilateral triangle					
	600 mm x 450 mm rectangular					
38	Maintenance cost of Project road for the 1st year	2	Each	3912.17		35209.53
				4744.91		9489.82
39	Maintenance cost of Project road for the 2nd year	1.050	Per Km.	22893.30		24037.97
40	Maintenance cost of Project road for the 3rd year	1.050	Per Km.	32753.30		34390.97
41	Maintenance cost of Project road for the 4th year	1.050	Per Km.	49472.40		51946.02
42	Maintenance cost of Project road for the 5th year	1.050	Per Km.	43794.30		45984.02
		1.050	Per Km.	55205.70		57965.99

Total Rs. 9849917.26  
 Less 10% 984991.73  
 Agreement Value Rs. 8864925.53  
 Say Rs. 8864926.00

Executive Engineer  
 R.W.D. Work Division  
 Biharsharif

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-मु0 अ0-4 (मु0)-नाबार्ड-03-34/2017

/पटना, दिनांक-

प्रेषक,

संजय कुमार, मोगुआर  
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदार)  
बिहार, पटना।आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा  
अनुपचारिक रूप से परामर्शित

विषय- योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के नालन्दा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ अन्तर्गत रहुई प्रखंड के अधीन मेन्डा चुन्नुचक चन्दौरा मोड़ के निकट से ओरा गाँव तक पथ निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 1.05 कि०मी० निर्माण हेतु रु० 96.83 लाख एवं अनुसंधान की राशि रु० 2.18 लाख अर्थात् रु० 99.01 लाख रुपये (निम्नान्वये लाख एक हजार रुपये) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-उप शीर्ष-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उप शीर्ष के अन्तर्गत राज्य के नालन्दा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ अन्तर्गत रहुई प्रखंड के अधीन मेन्डा चुन्नुचक चन्दौरा मोड़ के निकट से ओरा गाँव तक पथ निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 1.05 कि०मी० निर्माण हेतु रु० 96.83 लाख एवं अनुसंधान की राशि रु० 2.18 लाख अर्थात् रु० 99.01 लाख रुपये (निम्नान्वये लाख एक हजार रुपये) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को दो वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ द्वारा इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड 37-4515001030105 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 454.31 लाख रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ द्वारा योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से कमशः अधीक्षण अभियंता, नालन्दा एवं मुख्य अभियंता-1, पटना के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जाये।
7. इस योजना का चयन मा० मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, द्वारा संचिका संख्या- मु० अ०-4 (मु०)-नाबार्ड-03-34/2017 के पृ० सं०-03/टि० पर दिनांक - 13.02.17 को किया गया है।

15/02/2017  
15/02/2017

Executive Engineer

R.W.D. Work Division

Biharsharif



8. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं०- मु० नबार्ड-०३-३४/२०१७ के पृष्ठ सं०-०७/टि० पर दिनांक ०१.०५.१७ को प्राप्त है।
9. बिहार कोषागार सहित में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत ही राशि की निकासी की जाय।
10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-४-४५/९४-३०१ वि (२) दिनांक ३१.०१.१९९५ एवं वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (८)-११-२००५-५०९० वि (२) दिनांक १५.०९.०५ एवं २९५ दिनांक २४.०३.१५ के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प सं० ९६ दिनांक १३.०१.२००८ में निहित निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय। यह आदेश आंतरिक वित्तिय सलाहकार की सहमति प्राप्त किए निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तिय सलाहकार की सहमति संचिका सं०- मु० नबार्ड-०३-३४/२०१७ के पृष्ठ संख्या- /टि० पर दिनांक- को प्राप्त है।
11. यह राशि उन्नीस मंद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य में नहीं।
12. योजना के लिए कार्यपालक अनियंता, बिहारशरीफ से विस्तृत कार्य योजना मांगी जायेगी एवं प्रावधान की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित सम्यावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
13. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अंतराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जाय।
14. वित्त विभाग के पत्रांक-७७०, दिनांक २०.०९.११ के द्वारा सूचित किया गया है कि नबार्ड से RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नबार्ड को भेजी जाये।

विश्वासभाजन

ह०/-

(संजय कुमार)

अपर सचिव

/पटना, दिनांक-

ज्ञापक- मु० अ०-४ (मु०)-नबार्ड-०३-३४/२०१७

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/

अपर सचिव

/पटना, दिनांक-१७/५/१७

ज्ञापक- मु० अ०-४ (मु०)-नबार्ड-०३-३४/२०१७ ५८५३  
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, नालन्दा/उप विकास आयुक्त, नालन्दा/अभियंता प्रमुख सह-सचिव, BRRDA, ग्रा० का० वि०, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता-१, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/मु० अ०-४ (मुख्यालय), ग्रा० का० वि०/अधीक्षण अभियंता, ग्रा० का० वि०, कार्य अंचल, नालन्दा/कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ/मुख्य महाप्रबंधक नबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, (मौर्या कम्पलेक्स, पॉचवी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(RP)

15.5/12

अपर सचिव

D:\All desktop File\A.A Letter & Prasanuk Swikriti

दिपक कुमार

Executive Engineer

R.W.D. Work Division

harif